

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी 2024—माघ 23, शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. 2364-मप्रविस-16-विधान-2024.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, २०२४

वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने के लिए प्राधिकृत करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, २०२४ है.

वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १४,५२,२९,५५,५६,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक लाख पैंतालीस हजार दो सौ उनतीस करोड़ पचपन लाख छप्पन हजार होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से निकाली जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवार्यें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	० १,०६,२१,३२,२७,०००	१,०६,२१,३२,२७,०००
	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	० १,३९,२४,०३,६३,०००	१,३९,२४,०३,६३,०००
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	३,६६,१९,१७,०००	४१,४४,९९,०००
		पूंजी	२१,१२,६७,०००	७०,२१,०००
००२.	विमानन	राजस्व	३५,३२,६९,०००	१,०००
		पूंजी	७६,४४,८५,०००	१६,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
००३. गृह	राजस्व	४२,७२,७२,८०,०००	१,५१,४०,०००	४२,७४,२४,२०,०००
	पूंजी	२,८६,७०,६०,०००	०	२,८६,७०,६०,०००
००४. पर्यावरण	राजस्व	१४,०८,३६,०००	०	१४,०८,३६,०००
००५. जेल	राजस्व	२,३४,५९,३०,०००	२,००,०००	२,३४,६१,३०,०००
	पूंजी	३५,२३,५५,०००	०	३५,२३,५५,०००
००६. वित्त	राजस्व	१,१७,१६,७३,५६,०००	१,२३,५०,२१,०००	१,१८,४०,२३,७७,०००
	पूंजी	१,२९,३५,६९,०००	८०,००,०००	१,३०,१५,६९,०००
००७. वाणिज्यिक कर	राजस्व	९,७९,०१,७४,०००	४,८०,०००	९,७९,०६,५४,०००
	पूंजी	२८,६४,५२,०००	०	२८,६४,५२,०००
००८. भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राजस्व	३८,०७,४९,०७,०००	१,३९,४०,०००	३८,०८,८८,४७,०००
	पूंजी	१,४८,१८,८४,०००	०	१,४८,१८,८४,०००
००९. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व	२१,४३,४८,०००	२०,०००	२१,४३,६८,०००
०१०. वन	राजस्व	९,७५,३८,२५,०००	७८,००,०००	९,७६,१६,२५,०००
	पूंजी	८,४०,६७,३६,०००	०	८,४०,६७,३६,०००
०११. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राजस्व	५,७८,२५,१३,०००	१०,०००	५,७८,२५,२३,०००
	पूंजी	३,८२,०४,४७,०००	०	३,८२,०४,४७,०००
०१२. ऊर्जा	राजस्व	४०,५९,०४,०६,०००	०	४०,५९,०४,०६,०००
	पूंजी	३९,०४,१८,९२,०००	०	३९,०४,१८,९२,०००
०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	९५,८७,९१,०४,०००	१८,००,०००	९५,८८,०९,०४,०००
	पूंजी	५,७९,२१,०००	०	५,७९,२१,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०१४.	पशुपालन एवं डेयरी	राजस्व पूंजी	६,४५,८७,२०,००० ८,०३,२२,०००	५,५५,००० ०	६,४५,९२,७५,००० ८,०३,२२,०००
०१५.	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	राजस्व पूंजी	१३,३८,०५,००० ३,७२,८२,०००	४०,००० ०	१३,३८,४५,००० ३,७२,८२,०००
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व पूंजी	९१,५७,४२,००० ३,०००	४,००,००० ०	९१,६१,४२,००० ३,०००
०१७.	सहकारिता	राजस्व पूंजी	४,४३,१७,४३,००० ५५,५४,०००	४,८०,००० ०	४,४३,२२,२३,००० ५५,५४,०००
०१८.	श्रम	राजस्व पूंजी	३,९१,२०,६५,००० ७१,६५,०००	६,८०,००० ०	३,९१,२७,४५,००० ७१,६५,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व पूंजी	५४,१७,८९,२५,००० ४,२५,४१,५४,०००	२०,००० ०	५४,१७,८९,४५,००० ४,२५,४१,५४,०००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व पूंजी	४,२५,३५,८०,००० ३६,५७,३२,५५,०००	९०,००,००० ०	४,२६,२५,८०,००० ३६,५७,३२,५५,०००
०२१.	लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व पूंजी	४७,०६,८०,००० १०,००,०००	८,००० ०	४७,०६,८८,००० १०,००,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व पूंजी	४१,८७,७१,२२,००० १३,९३,३७,९६,०००	४,६६,८०,८४,००० ९६,००,०२,०००	४६,५४,५२,०६,००० १४,८९,३७,९८,०००
०२३.	जल संसाधन	राजस्व पूंजी	५,९६,३७,५६,००० २४,६९,७२,९३,०००	० ८,००,००,०००	५,९६,३७,५६,००० २४,७७,७२,९३,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०२४. लोक निर्माण कार्य	राजस्व	९,६१,१०,७३,०००	४,००,०५,०००	९,६५,१०,७८,०००
	पूंजी	३१,१४,९६,७३,०००	१८,००,०६,०००	३१,३२,९६,७९,०००
०२५. खनिज साधन	राजस्व	१,३७,१२,७८,०००	३,४०,०२,००,०००	४,७७,१४,७८,०००
	पूंजी	३,८४,६०,८२,०००	०	३,८४,६०,८२,०००
०२६. संस्कृति	राजस्व	१,३७,४१,७२,०००	३२,०००	१,३७,४२,०४,०००
	पूंजी	१,४९,०३,३४,०००	०	१,४९,०३,३४,०००
०२७. स्कूल शिक्षा	राजस्व	१,१६,७४,२५,१२,०००	१६,००,०००	१,१६,७४,४१,१२,०००
	पूंजी	१३,२९,५५,१७,०००	०	१३,२९,५५,१७,०००
०२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	५४,१६,१६,०००	२९,१०,०००	५४,४५,२६,०००
	पूंजी	१,२९,०००	०	१,२९,०००
०२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१३,७६,७७,५८,०००	१,०७,३९,५१,०००	१४,८४,१७,०९,०००
	पूंजी	१,६९,१६,०६,०००	१,७७,६०,०००	१,७०,९३,६६,०००
०३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	५१,००,५३,५२,०००	२,७२,०००	५१,००,५६,२४,०००
	पूंजी	१२,११,२४,८५,०००	०	१२,११,२४,८५,०००
०३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	१,४०,३१,२३,०००	८०,०००	१,४०,३२,०३,०००
	पूंजी	२,४३,७७,६८,०००	०	२,४३,७७,६८,०००
०३२. जनसंपर्क	राजस्व	२,८९,४९,१८,०००	४०,०००	२,८९,४९,५८,०००
	पूंजी	१,८८,०३,०००	०	१,८८,०३,०००
०३३. जनजातीय कार्य	राजस्व	४२,८७,८३,६८,०००	३,६०,०००	४२,८७,८७,२८,०००
	पूंजी	७,४०,८९,०७,०००	०	७,४०,८९,०७,०००
०३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्ताजन कल्याण	राजस्व	१८,२०,७६,०६,०००	४८,०००	१८,२०,७६,५४,०००
	पूंजी	२०,०२,६९,०००	०	२०,०२,६९,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	
०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	२,९७,३०,५५,०००	२,०००	२,९७,३०,५७,०००
	पूंजी	७७,३९,९२,०००	०	७७,३९,९२,०००
०३६. परिवहन	राजस्व	६२,१०,६३,०००	१०,००,०००	६२,२०,६३,०००
	पूंजी	२,०४,२५,०००	०	२,०४,२५,०००
०३७. पर्यटन	राजस्व	४८,३०,००,०००	१,०००	४८,३०,०१,०००
	पूंजी	६०,८०,११,०००	०	६०,८०,११,०००
०३८. आयुष	राजस्व	३,०८,९९,५२,०००	३,२०,०००	३,०९,०२,७२,०००
	पूंजी	९,५८,४४,०००	०	९,५८,४४,०००
०३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	राजस्व	६,४९,४२,८५,०००	७४,०००	६,४९,४३,५९,०००
	पूंजी	५,८९,६०,०००	०	५,८९,६०,०००
०४०. पंचायत	राजस्व	४२,२८,४८,३४,०००	२०,०००	४२,२८,४८,५४,०००
	पूंजी	३,०००	०	३,०००
०४१. प्रवासी भारतीय	राजस्व	७,७८,१४,०००	०	७,७८,१४,०००
०४२. भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास.	राजस्व	६३,६२,४२,०००	२,०१,०००	६३,६४,४३,०००
	पूंजी	२,०६,३०,०००	०	२,०६,३०,०००
०४३. खेल और युवा कल्याण	राजस्व	७६,४१,३६,०००	२१,०००	७६,४१,५७,०००
	पूंजी	१,५८,६९,४९,०००	०	१,५८,६९,४९,०००
०४४. उच्च शिक्षा	राजस्व	१२,३९,९२,९५,०००	१४,००,०००	१२,४०,०६,९५,०००
	पूंजी	२,८०,३९,८६,०००	०	२,८०,३९,८६,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०४५. लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राजस्व	५,०२,१६,०००	०
	पूंजी	२६,०३,२२,०००	०
०४६. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व	७३,०२,७४,०००	२,००,०००
	पूंजी	७३,०८,१७,०००	०
०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	७,४७,४८,४१,०००	४,००,०००
	पूंजी	३,२७,३५,२७,०००	०
०४८. नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	९३,४९,३६,०००	०
	पूंजी	१४,३५,८६,२५,०००	६०,०१,०००
०४९. अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	७,८६,९२,३६,०००	४,००,०००
	पूंजी	८४,४२,२४,०००	०
०५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	१,८७,८९,३५,०००	४०,०००
	पूंजी	२,२४,०३,०००	०
०५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	३९,०३,१८,०००	६०,०००
	पूंजी	७,२३,०००	०
०५२. चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	१२,२८,७१,०५,०००	४,००,०००
	पूंजी	६,२२,५६,३०,०००	०
०५३. अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	५,८५,०५,०००	४,०००
	पूंजी	५६,०१,३७,०००	०
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	५,१३,९३,५२,०००	४०,०००
	पूंजी	९,१२,०००	०

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	९३,६०,५४,०२,०००	४,००,०००	९३,६०,५८,०२,०००
	पूंजी	७७,६४,००,०००	०	७७,६४,००,०००
०५६. कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राजस्व	५३,३०,८४,०००	४०,०००	५३,३१,२४,०००
	पूंजी	२८,३१,०००	०	२८,३१,०००
०५७. आनंद	राजस्व	२,८०,०२,०००	०	२,८०,०२,०००
योग :	राजस्व :	१,४९,६७,९६,६१,०००	१,१७,१०,५९,२६,०००	१०,६६,७८,५५,८७,०००
	पूंजी :	२,४४,८५,०८,९६,०००	१,४०,६५,९१,५३,०००	३,८५,५०,९९,६९,०००
	वृहद्-योग :	११,९४,५३,०४,७७,०००	२,५७,७६,५०,७९,०००	१४,५२,२९,५५,५६,०००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०६ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग को प्राधिकृत करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के भाग के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के प्राक्कलित व्यय की बावत् विधान सभा द्वारा किए गए अग्रिम अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख ७ फरवरी, २०२४

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.